


[REVISED PLAN]



Map for proposed Building is as per Bye Laws Submitted for approval.  
 P. Asstt. Asstt. Arch. Asstt. Arch.

अगर के अंतर्गत एवं गांधी रोड के अंतर्गत...  
 Enroachments on front, Rear & Side...  
 108000 per S&M/2011/10500

- NOTES:-
1. ALL DIMENSIONS & LEVELS ARE IN MILLIMETERS.
  2. ALL THE AREAS INDICATED ARE IN SQ.M.
  3. COLOURS ARE ONLY INDICATIVE AND WILL BE AS PER RELEVANT STRUCTURAL DRAWINGS.
  4. ENTIRE BUILDING WILL BE COMPLETELY AIR CONDITIONED AND ALL STORES & TOILETS, KITCHEN & PARTIES WILL BE MECHANICALLY VENTILATED.
  5. ALL DOOR DOORS SHALL HAVE 1 HOUR FIRE RESISTANT.
  6. ALL THE CONDITIONS/RECOMMENDATIONS OF C/O ISSUES WILL BE STRICTLY FOLLOWED. (F-4/2015/2016/2017/2018/2019) SHALL STRICTLY BE OBSERVED TO BEING AND AFTER COURSE OF CONSTRUCTION.
  7. ALL LIFT, ESCALATOR & MACHINE ROOM SHOULD BE AS PER IS STANDARDS.
  8. THE BUILDING SHALL BE FULLY SPRINKLED EQUIPPED WITH AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEM.
  9. WHEREVER AREA IS CALCULATED BY COMPUTER CALCULATION IS THE RESPONSIBILITY OF THE ARCHITECT.

DRAWING TITLE: FIRST FLOOR PLAN

PROPOSED SUBMISSION DRAWING FOR  
 Noida MIXED USED PROJECT  
 PLOT NO. - 03 SECTOR-84, NOIDA  
 SUPERTECH REALTOR PVT. LTD.

OWNER'S SEAL  
 For SUPERTECH LIMITED  
 Director/Authorised Signatory

ARCHITECT'S SEAL  
 modarchindia  
 architecture, interior, environmental  
 Plot no: B-99 First Floor, sec-63 Noida  
 Mob.-+919811085985

FIRST FLOOR PLAN  
 (SCALE - 1:500)



(2) आवासीय के अतिरिक्त प्रयोग एवं हेतु आवासीय  
 इसके अंतर्गत प्रयोग (अवकाश) में विद्यमान  
 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोग के अंतर्गत

SCALE: 1:500  
 DATE: 14.12.2012  
 DRAWN: MOHD SAJI  
 CHECKED: ANISH

[REVISED PLAN]

KEY PLAN

यह प्लान केवल एक साइट प्लान है।  
 इस पर भारी संशोधन  
 कार्य किया गया है।  
 इस प्लान को अंतिम स्वरूप में  
 प्रस्तुत किया गया है।  
 इस प्लान में कोई भी परिवर्तन  
 बिना मालिक की सहमति के  
 नहीं किया जा सकता है।



- NOTES:
1. ALL DIMENSIONS & LEVELS ARE IN MILLIMETERS.
  2. ALL THE AREAS INDICATED ARE IN SQ.M.
  3. COLUMNS ARE ONLY INDICATIVE AND WILL BE AS PER RELEVANT STRUCTURAL DRAWINGS.
  4. ENTIRE BUILDING WILL BE CENTRALLY AIR CONDITIONED AND ALL STORES & TOILETS, KITCHEN & PANTRIES WILL BE MECHANICALLY VENTILATED.
  5. ALL EXIT DOORS SHALL HAVE 1 HOUR FIRE RESISTANT RATING.
  6. ALL THE CONDITIONS/RECOMMENDATIONS OF CFC ISSUES WIDE THEIR LETTER NO :- F-6/FPS/MS/SP/2008/167 DATED 2.4.08 SHALL STRICTLY BE ADHERED TO DURING AND AFTER COURSE OF CONSTRUCTION.
  7. ALL LIFE ESCALATOR & MACHINE ROOM SHOULD BE AS PER ISI STANDARD.
  8. THE BUILDING SHALL BE FULLY SPRINKLER EQUIPPED WITH AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEM.
  9. WHEREVER AREA IS CALCULATED BY COMPUTER CALCULATION IS THE RESPONSIBILITY OF THE ARCHITECT.

DRAWING TITLE  
**GROUND FLOOR PLAN**

PROJECT  
**PROPOSED SUBMISSION DRAWING FOR NOIDA MIXED USED PROJECT AT PLOT NO. - 03 SECTOR-94, NOIDA**

OWNER  
**M/S - SUPERTECH REALTOR Pvt. Ltd.**

ARCHITECT'S SEAL  
**ANIL KUMAR**  
 Director/Authorised Signatory  
**For SUPERTECH LIMITED**

ARCHITECT  
**modarchindia**  
 architecture. interior. environmental  
 Plot no- 8-99 First Floor, sec-63 Noida  
 Mob.-+919811085985

**GROUND FLOOR PLAN**  
 (SCALE - 1:500)

SCALE :- 1:500

DATE: 04.12.2012

डॉ. अशोक कुमार  
 प्रमुख, संरचनात्मक विभाग  
 आर.एम.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.  
 प्लॉट नं. 03, सेक्टर-94, नोएडा

